


सत्यमेव जयते
भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 239] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 29, 1976/वी० 8, 1898

No. 239] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 29, 1976/PAUSA 8, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 29th December 1976

SUBJECT.—*Conditions for licensing imports under the Italian Suppliers Credit.*

No. 130 ITC(PN)/76.—Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 71-ITC(PN)/76 dated the 28th July, 1976 under which the licensing conditions for imports under the Italian Suppliers Credit were notified.

2. In modification of para 11 of the Licensing Conditions given in annexure to the Public Notice *ibid.*, it has now been decided that the value of contracts should be expressed in U.S. dollars and not in Italian currency. Accordingly, the references to Italian currency in Annexures I and II to the said Licensing Conditions may also be substituted by U.S. dollars.

A. S. GILL,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियन्त्रण

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1976

विषय :—इटली संभरक ऋण के अन्तर्गत आयात लाइसेंस प्रदान करने के लिए शर्तें

सं० 130-आई टी सी (पी एन) /76. —वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 71-आई टी सी (पी एन)/76 दिनांक 28 जुलाई, 1976 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें इटली संभरक ऋण के अन्तर्गत आयातों के लिए लाइसेंस प्रदान करने की शर्तें अधिसूचित की गई थीं।

2. पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध में दी गई लाइसेंस शर्तों के परा 11 का आशोधन करते हुए अब यह निश्चय किया गया है कि संविदाओं का मूल्य संयुक्त राज्य के डालर में अभिव्यक्त होना चाहिए इटली की मुद्रा में नहीं। तदनुसार, उक्त लाइसेंस शर्तों के अनुबन्ध 1 और 2 में इटली की मुद्रा के सन्दर्भों के स्थान पर भी संयुक्त राज्य डालर प्रतिस्थापित किये जाएं।

ए० एस० गिल;

मुख्य निश्चयक, आयात-निर्यात।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976